

CLASS-V HINDI II

पाठ- अँधेरे का दीपक

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए-

प्र०-1 सुधीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था ?

उ०-सुधीर का जन्म 11 जनवरी, 1938 को पुणे में हुआ था।

प्र०-2 सुधीर की माँ का क्या नाम था ?

उ०-सुधीर की माँ का नाम ताराबाई था।

प्र०-3 सुधीर की प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई थी ?

उ०-सुधीर की प्राथमिक शिक्षा पुणे के शारदा मंदिर में हुई थी।

प्र०-4 सुधीर ने विकलांगता को किस रूप में स्वीकार किया ?

उ०-सुधीर ने विकलांगता को अभिशाप न मानकर उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए-

प्र०-1 सुधीर कौन-सी बीमारी की चपेट में आया और उस बीमारी का उस पर क्या प्रभाव पड़ा ?

उ०- सुधीर अभी एक वर्ष का भी नहीं हुआ था कि पोलियो की बीमारी की चपेट में आ गया। पोलियो के कारण उसकी कमर के नीचे का भाग बेकार हो गया। फल स्वरूप न वह चल सकता था और न ठीक से बैठ सकता था।

प्र०-2 सुधीर ने स्नातक होने का श्रेय किसे दिया और क्यों ?

उ०-पहली कक्षा से लेकर स्नातक तक सुधीर की माँ उसे प्रतिदिन उसकी बाबा गाड़ी में ले जाती और वापस लाती। माँ के अपार श्रम के कारण ही वह स्नातक बन सका। इसलिए अपने स्नातक बनने का श्रेय वह माँ को देता है।

प्र०-3 स्नातक होने के बाद उन्हें कहाँ और कौन-सी नौकरी मिली ?

उ०-स्नातक होने के कुछ ही दिनों बाद सुधीर को पुणे की राजा बहादुर मोतीलाल मिल के लेखा विभाग में नौकरी मिल गई।

प्र०-4 सुधीर अच्छा काम और अच्छा वेतन पाने के बावजूद भीतर-ही-भीतर बेचैन क्यों था ?

उ०-सुधीर को अच्छा वेतन भी मिल रहा था, परंतु वह भीतर-ही-भीतर बेचैन था। वह यह अनुभव कर रहा था कि मेरी तो समस्या हल हो गई, परंतु मुझ जैसे सैकड़ों विकलांग और भी हैं। उनके लिए कुछ न करते हुए केवल अपने लिए जीना उसे अच्छा नहीं लग रहा था।

प्र०-5 'आधार प्रकाशन' क्या है ? इसके बारे में लिखिए।

उ०-सुधीर की रुचि पढ़ने- लिखने में बहुत थी, इसीलिए उसने 'आधार प्रकाशन' नाम की संस्था स्थापित की थी। 'आधार प्रकाशन' सुधीर के जीवन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। बाबूराव दीवाण नाम के एक विकलांग पर श्री मधुकर कुलकर्णी द्वारा लिखी पुस्तक 'माणूस मोठा जिद्दीचा' का दूसरा संस्करण सुधीर ने प्रकाशित किया।

पाठ-15. अरमान

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए-

प्र०-1 कवि ने किस अरमान की बात की है ?

उ०-कवि ने देश के लिए बलिदान होने के अरमान की बात की है।

प्र०-2 कवि ने किस प्रकार के दीप जलाने को कहा है ?

उ०- कवि ने उद्यम रूपी दीप जलाने को कहा है।

प्र०-3 'उद्यम' शब्द का क्या अर्थ है ?

उ०-उद्यम का अर्थ- 'कर्म, परिश्रम' है।

प्र०-4 'अरमान' कविता के रचयिता कौन हैं ?

उ०-'अरमान' कविता के रचयिता पं० रामनरेश त्रिपाठी जी हैं।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए-

प्र०-1 कवि को किस बात का अरमान है ?

उ०-कवि का अरमान है कि वह कुछ करके दिखाए और देश के लिए मर-मिटने वाले अमर-शहीदों के बीच अपना नाम लिखवाए। गरीब, भिखारी लोगों को भी सुखी बनाए। देश के कोने-कोने में अपने परिश्रम का दीप जलाए। लोगों में उत्साह जाग्रत करें तथा मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दे।

प्र०-2 कवी किसे गले लगाना चाहता है ?

उ०- कवि उन लोगों को गले लगाना चाहता है जो लोग गरीब और भिखारी हैं, जिन पर किसी की छाया नहीं है।

प्र०-3 'अमरों में नाम लिखवाना'-से कवि का क्या तात्पर्य है ?

उ०-कवि शूरवीर बच्चों के माध्यम से कहते हैं कि मैं देश के लिए ऐसा कार्य करना चाहता हूँ जिससे मेरा नाम अमर हो जाए।

प्र०-4 कवि ने कहाँ-कहाँ उद्यम का दीपक जलाने के लिए कहा है ?

उ०-जो लोग अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए हैं, जिन्हें अपनी पहचान भी नहीं मालूम है और निराश होकर अपना जीवन बिता रहे हैं, कवि ने उन मनुष्यों से कोने-कोने में परिश्रम का दीप जलाने के लिए कहा है।

प्र०-5 कैसे व्यक्तियों के भीतर उत्साह जगाने की आवश्यकता पड़ती है ?

उ०-जिन व्यक्तियों ने जीवन में आशा करना छोड़ दिया है, उन व्यक्तियों के भीतर उत्साह जगाने की आवश्यकता पड़ती है।

प्र०-6 देश के प्रति व्यक्ति का क्या कर्तव्य होना चाहिए ?

उ०-देश के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपने देश की सुरक्षा और प्रगति के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दे।

पाठ-16.मिट्टू

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए-

प्र०-1 सरकस कंपनी कौन से शहर में आई थी ?

उ०-सरकस कंपनी लखनऊ शहर में आई थी।

प्र०-2 मिट्टू किसका नाम था ?

उ०-मिट्टू एक बंदर का नाम था।

प्र०-3 गोपाल किसके पास घंटों बैठा रहता था ?

उ०- गोपाल मिट्टू के पास घंटों बैठा रहता था।

प्र०-4 माँ ने गोपाल को कितने पैसे दिए ?

उ०- माँ ने गोपाल को अठन्नी दी।

प्र०-5 मिट्टू को किसने घायल किया ?

उ०-मिट्टू को चीते ने घायल किया।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए-

प्र०-1 सरकस कंपनी के पास कौन-कौन से जानवर थे ?

उ०- सरकस कंपनी के पास शेर, भालू, चीता और कई प्रकार के अन्य जानवर भी थे। इनके सिवा एक बंदर भी था, जिसका नाम 'मिट्टू' था।

प्र०-2 माँ ने गोपाल को क्या समझाया ?

उ०-माँ ने गोपाल को समझाया-"बेटा, बंदर किसी को प्यार नहीं करता। वह तो बड़ा शैतान होता है। यहाँ आकर वह सबको काटेगा। मुफ्त में पास-पड़ोस के उलाहने सुनने पड़ेंगे।"

प्र०-3 सरकस के जाने की बात सुनकर गोपाल क्यों दुखी था ?

उ०-सरकस के जाने की बात सुनकर गोपाल दुखी था क्योंकि अब वह मिट्टू से बिछुड़ जाएगा।

प्र०-4 गोपाल को चीते से किसने तथा कैसे बचाया ?

उ०-गोपाल को चीते से मिट्टू ने बचाया। उसने अपने दाँतों से काट-काट कर घायल किया और स्वयं भी घायल हो गया।

